

# University of Lucknow, Lucknow Admission Helpline



## Technical Helpline

- 0522-4150500

## Program Helpline

- 6392451866
- 9415790910
- 7991200666
- 7991200516

## Undergraduate Programs

- 9415408635
- 9415006072
- 9451062226

## Postgraduate Programs

- 9450366236
- 9839065737

## BBA

- 9415704024
- 9839010227
- 6392451866
- 9839010227
- 7991200625

## B.P.Ed. and M.P.Ed.

- 9140823011
- 9415580700

## MBA Programs

- 9335911393
- 9455925500
- 8960066555
- 9839010227
- 7991200625
- 9415704024
- 9235555190

## B.Tech

- 7991200653
- 8090196096

## M.Ed.

- 7991200570
- 9839041493
- 7007364278

## B.El.Ed.

- 7991200570
- 7007364278

**Available from 9:00 AM to 6:00 PM on working days**

## Important Note

### • Instructions Regarding Application Fee Payment

- यदि आवेदक द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु किया गया भुगतान तुरंत स्वतः अद्यतन (अपडेट) नहीं होता है, तो आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे इस हेतु कम से कम 72 घंटे तक प्रतीक्षा करें। यदि इस अवधि में भी भुगतान अद्यतन (अपडेट) नहीं होता है तब उन्हें तकनीकी हेल्पलाइन 0522-4150500 पर (कार्यालय अवधि में) संपर्क करने का परामर्श दिया जाता है। आवेदकों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे कई भुगतान न करें। कंसोल पर सफल होने वाले सभी भुगतान स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएंगे। उन्हें ध्यान देना चाहिए कि उन पर कोई विलंब शुल्क या जुमाना नहीं लगाया जाएगा।
- In case the payment is not updated immediately, applicants are advised to wait for at least 72 hours before contacting the technical helpline 0522-4150500 during working hours. **They are also advised not to make multiple payments.** All payments that are successful on the console will get updated automatically. **They should note that no late fee or fine would be imposed on them.**

### • Instructions regarding Appearing Applicants

- जो आवेदक वर्ष 2020 में अपनी अहता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें इस समय परीक्षा बोर्ड का नाम और रोल नंबर इस ऑन लाइन आवेदन पत्र में भरना होगा। ऐसे सभी आवेदकों को प्रवेश काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने से पहले उनके द्वारा अहता परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को ऑनलाइन लॉगिन करके भरना होगा।
- Those applicants who are appearing in their qualifying examination in 2020 have to fill in the name of the examination board and roll number now. All such applicants have to login and fill their marks obtained in the qualifying examination before appearing for counseling.

### • Instructions regarding EWS Certificate

- जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) हेतु आरक्षित सीटों पर प्रवेश का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें व्यक्तिगत विवरण के पृष्ठ में हां का विकल्प चुनना होगा। फॉर्म भरने के समय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। इस हेतु, सम्बंधित प्रमाण पत्र बनवा कर पुनः ऑनलाइन लॉगिन करके उस पेज पर अपलोड किया जाना होगा, जहां फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने का विकल्प दिया गया है।
- Applicants who want to avail the benefit of Economically Weaker Section (EWS) seats have to choose yes in the personal information page. The certificate for this can be uploaded on the page where there option of uploading photo and signature. It is not compulsory to upload the certificate at the time of form filling.

### • Instructions regarding Category Certificate

- अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इस हेतु दिए गए स्थान में जाति प्रमाण पत्र की संख्या भरना है। यदि उनके पास इस समय नवीन प्रमाण पत्र नहीं है तो वे पुराने प्रमाण पत्र की संख्या या उनके द्वारा नवीन प्रमाण पत्र बनने हेतु दिए गए आवेदन पत्र की पावती संख्या दर्ज कर सकते हैं या इसे रिक्त छोड़ सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी बाद में प्रमाण पत्र उपलब्ध करा सकते हैं। कृपया आवेदन शुल्क का भुगतान करने से पहले अपनी श्रेणी की जांच अवश्य करें। कार्यार्थी फॉर्म जमा करने के बाद इस सूचना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
- Caste certificate number in the space provided for this. In case they do not have the recent certificate they can enter the number of the old certificate or the acknowledgement number or leave it blank and fill the form. Please check the category before paying the application fee as this field cannot be edited after the final submission of the form. They can provide the certificate later.

### • Instructions regarding Income Certificate

**Available from 9:00 AM to 6:00 PM on working days**

## University of Lucknow, Lucknow Admission Helpline



- अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचितजाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को, जो शून्य शुल्क का लाभ उठाना चाहते ह, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इस हेतु दिए गए स्थान में आय प्रमाण-पत्र की संख्या भरना है। यदि उनके पास इस समय नवीन प्रमाण-पत्र नहीं है तो वे पुराने प्रमाण पत्र की संख्या या उनके द्वारा नवीन प्रमाण पत्र बनने हेतु दिए गए आवेदन पत्र की पावती संख्या दर्ज कर सकते हैं या इसे रिक्त छोड़ सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी बाद में प्रमाण पत्र उपलब्ध करा सकते हैं। कृपया आवेदन शुल्क का भुगतान करने से पहले अपनी श्रेणी की जांच अवश्य कर लें क्योंकि फॉर्म जमा करने के बाद इस सूचना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
- Applicants of the SC and ST category who want to avail the benefit of zero fee are required to mention the income certificate number in the space provided for this. In case they do not have the recent certificate they can enter the number of the old certificate or the acknowledgement number or leave it blank and fill the form. They can provide the certificate later.



**Available from 9:00 AM to 6:00 PM on working days**